

भारत तंजानिया संबंध

प्रलिस के लयः

तंजानिया के सीमावर्ती देश, वक्ुटोरिया झील, न्गोरोंगोरो क्रेटर, माउंट कलिमिंजारो, तांगानिका झील ।

मेन्स के लयः

भारत और तंजानिया के बीच सहयोग के क्षेत्र, द्वपिकषीय समूह और समझौते, वैश्विक जैव ईधन गठबंधन

[स्रोत: पी. आई. बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दल्लि में भारत-तंजानिया नविश फोरम में तंजानिया के राष्ट्रपतिका स्वागत कयि ।

- [भारत और तंजानिया](#) ने अपने द्वपिकषीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत कयि है ।

इस यात्रा से प्रमुख बदिः

- दोनों देशों ने वभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को मज़बूत करने के लयि छह समझौतों पर हस्ताक्षर कयि ।
 - इसमें डिजिटल डोमेन, संस्कृति, खेल, समुद्री उद्योग और व्हाइट शपिंग सूचना साझाकरण में सहयोग शामिल है ।
 - ये समझौते दोनों देशों के बीच तकनीकी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की नीव रखते हैं ।
- दोनों देश भारत में अधिकृत बैंकों को तंजानिया में संपर्की बैंकों के वशिष रुपया [वोस्ट्रो खाते \(Special Rupee Vostro Accounts-SRVA\)](#) खोलने में सकषम बनाकर [भारतीय रुपए](#) और तंजानियन शलिंग के बीच व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं ।
 - वर्तमान में समास्याओं को दूर करने और इस मुद्रा व्यापार तंत्र की स्थरिता सुनश्चिति करने के प्रयास कयि जा रहे हैं ।
- नव स्थापति पंच-वर्षीय रक्षा रोडमैप सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता नरिमाण और रक्षा क्षेत्र में वस्तितरति सहयोग में सहायता प्रदान करेगा ।
- दोनों देशों ने [हदि महासागर क्षेत्र](#) में समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमत जितार्ई है ।
 - जुलाई 2023 में पहली बार हुए भारत-तंजानिया संयुक्त [वशिष आर्थिक क्षेत्र \(EEZ\)](#) अनुवीक्षण अभ्यास की सफलता इस दशा में एक सकारात्मक कदम था ।
- तंजानिया की राष्ट्रपतिसामयि सुलुहू हसन को दल्लि के जवाहरलाल नेहरू वशिष्वदियालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली ।
 - वह भारत और तंजानिया के बीच आर्थिक कूटनीति, क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने में योगदान के लयि यह सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं ।
- तंजानिया सरकार ने यह भी घोषणा की कयि [इंटरनेशनल बगि कैट एलायंस](#) और [ग्लोबल बायोफयुल एलायंस](#) में शामिल होंगे ।

तंजानिया से संबंधति मुख्य तथ्यः

- **परचियः** तंजानिया पूरवी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है । आठ पड़ोसी राष्ट्रों के साथ यह सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है ।
 - ज़ांजीबार, पेम्बा और माफयिा द्वीप भी तंजानिया का हसिसा हैं ।



- **राजधानी:** दार-एस-सलाम देश की प्रशासनिक राजधानी है जबकि डोडोमा वधायी राजधानी है।
- **मुद्रा:** तंज़ानियन शिलिंगि
- **भू-आकृति:**
 - इसके उत्तरी क्षेत्र में वक्टोरिया झील का दक्षिणी भाग है जो नील नदी का स्रोत है।
 - इसके अतिरिक्त उत्तर में विश्व प्रसिद्ध नागोरोंगोरो क्रेटर है, जो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी काल्डेरा है।
 - इसका उत्तरपूर्वी भाग पहाड़ी क्षेत्र से घिरा है। इसी क्षेत्र में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरु और अफ्रीका का सबसे ऊँचा पर्वत एवं विश्व का सबसे ऊँचा एकल मुक्त खड़ा पर्वत माउंट कलिमिंजारो है।
 - पश्चिम में तांगानिका झील है जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है।
 - पूर्वी क्षेत्र में हिंद महासागर और अन्य तटीय तराई क्षेत्र हैं।

भारत और तंज़ानिया के बीच सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- **परिचय:**
 - भारत तंज़ानिया को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है, यह दोनों देशों के व्यापक भू-राजनीतिक संदर्भ को दर्शाता है।
 - तंज़ानिया भारत-अफ्रीका संबंधों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **आर्थिक सहयोग:**
 - भारत तंज़ानिया के निर्यात के लिये सबसे बड़ा गंतव्य देश है और दोनों देशों के बीच वर्ष 2022-23 में कुल व्यापार 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारतीय निर्यात भी शामिल था।
 - भारत तंज़ानिया में पाँचवाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
 - भारत द्वारा तंज़ानिया को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ: पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्युटिकल उत्पाद, मशीनरी, परमाणु रिक्टर, बाँयलर, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी आदि।
 - भारत में तंज़ानिया द्वारा आयात किये जाने वाले प्रमुख वस्तुएँ: सोने के अयस्क, काजू, मसाले (मुख्य रूप से लौंग), अयस्क और धातु स्क्रैप, रत्न, आदि।

Education & Health Cooperation

- IIT Madras Zanzibar - 1st Offshore campus of IIT established in Tanzania
- India gifted 10 ambulances to Tanzania in 2023
- Essential medicines gifted by India to Tanzania in 2018, 2020 and 2021
- India gifted over 1,30,000 NCERT Science & Mathematics text books to Tanzanian Secondary Schools in 2017
- Radiation therapy machine 'Bhabhatron II' for cancer patients setup by India in Mwanza, Tanzania in 2016
- 2 ICT Centres with Param Supercomputers setup in Dar es Salaam & Arusha under India's assistance

